



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष 1944 (श0)
(सं0 पटना 14) पटना, मंगलवार, 03 जनवरी, 2023

बिहार विधान सभा सचिवालय
सं० 01लो०ले०स०-5/22-1486/वि०स०

प्रेषक,

अनिल कुमार जायसवाल

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार ।

पटना, दिनांक-22 दिसम्बर, 2022

विषय:- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के "स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन" एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन "राजस्व प्रक्षेत्र", "बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन", खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन" तथा "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन" को सदन पटल पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के "स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन" एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन "राजस्व प्रक्षेत्र", "बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन", खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और

नियंत्रणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” तथा “निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” को माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक-16.12.2022 को उपस्थापित किया गया तथा “प्रतिवेदन जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो” के आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

तत्संबंधी पारित प्रस्ताव की टंकित प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है ।

प्रस्ताव

“भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के “स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन” एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन “राजस्व प्रक्षेत्र”, “बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन”, “खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” तथा “निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विश्वासभाजन,
अनिल कुमार जायसवाल,
उप सचिव ।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 14-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**